



॥ श्री कुबेर चालीसा ॥

आरती PDF

दोहा:

जैसे अटल हिमालय और जैसे अडिग सुमेर।

ऐसे ही स्वर्ग द्वार पै, अविचल खड़े कुबेर॥

आरती PDF

विघ्न हरण मंगल करण, सुनो शरणागत की टेर।

भक्त हेतु वितरण करो, धन माया के ढेर॥

आरती PDF

चौपाई:

आरती PDF

जै जै जै श्री कुबेर भण्डारी।
धन माया के तुम अधिकारी ॥

आरती PDF

तप तेज पुंज निर्भय भय हारी।
पवन वेग सम सम तनु बलधारी ॥

स्वर्ग द्वार की करें पहरे दारी।
सेवक इंद्र देव के आज्ञाकारी ॥

आरती PDF

यक्ष यक्षणी की है सेना भारी।
सेनापति बने युद्ध में धनुधारी ॥

महा योद्धा बन शस्त्र धारें।
युद्ध करें शत्रु को मारें ॥

आरती PDF

सदा विजयी कभी ना हारें।
भगत जनों के संकट टारें॥

प्रपितामह हैं स्वयं विधाता।
पुलिस्ता वंश के जन्म विख्याता॥

आरती PDF

विश्रवा पिता इडविडा जी माता।
विभीषण भगत आपके भ्राता॥

आरती PDF

शिव चरणों में जब ध्यान लगाया।
घोर तपस्या करी तन को सुखाया॥

आरती PDF

शिव वरदान मिले देवत्य पाया।
अमृत पान करी अमर हुई काया॥

धर्म ध्वजा सदा लिए हाथ में।
देवी देवता सब फिरें साथ में॥

पीताम्बर वस्त्र पहने गात में।
बल शक्ति पूरी यक्ष जात में॥

स्वर्ण सिंहासन आप विराजें।
त्रिशूल गदा हाथ में साजें॥

शंख मृदंग नगारे बाजें।
गंधर्व राग मधुर स्वर गाजें॥

चौंसठ योगनी मंगल गावें।
ऋद्धि सिद्धि नित भोग लगावें॥

दास दासनी सिर छत्र फिरावें।
यक्ष यक्षणी मिल चंवर ढूलावें॥

ऋषियों में जैसे परशुराम बली हैं।
देवन्ह में जैसे हनुमान बली हैं॥

पुरुषों में जैसे भीम बली हैं।
यक्षों में ऐसे ही कुबेर बली हैं॥

भगतों में जैसे प्रहलाद बड़े हैं।
पक्षियों में जैसे गरुड़ बड़े हैं॥

नागों में जैसे शेष बड़े हैं।
वैसे ही भगत कुबेर बड़े हैं॥

<https://aartipdf.com/>

कांधे धनुष हाथ में भाला।
गले फूलों की पहनी माला॥

स्वर्ण मुकुट अरु देह विशाला।
दूर दूर तक होए उजाला॥

कुबेर देव को जो मन में धारे।
सदा विजय हो कभी न हारे॥

बिगड़े काम बन जाएं सारे।
अन्न धन के रहें भरे भण्डारे ॥

कुबेर गरीब को आप उभारें।
कुबेर कर्ज को शीघ्र उतारें ॥

<https://aartipdf.com/>

कुबेर भगत के संकट टारें।
कुबेर शत्रु को क्षण में मारें ॥

शीघ्र धनी जो होना चाहे।
क्युं नहीं यक्ष कुबेर मनाएं ॥

यह पाठ जो पढ़े पढ़ाएं।
दिन दुगना व्यापार बढ़ाएं ॥

भूत प्रेत को कुबेर भगावें।
अड़े काम को कुबेर बनावें ॥

रोग शोक को कुबेर नशावैं।
कलंक कोढ़ को कुबेर हटावैं॥

कुबेर चढ़े को और चढ़ा दे।
कुबेर गिरे को पुनः उठा दे॥

कुबेर भाग्य को तुरंत जगा दे।
कुबेर भूले को राह बता दे॥

प्यासे की प्यास कुबेर बुझा दे।
भूखे की भूख कुबेर मिटा दे॥

रोगी का रोग कुबेर घटा दे।
दुखिया का दुख कुबेर छुटा दे॥

बांझ की गोद कुबेर भरा दे।
कारोबार को कुबेर बढ़ा दे॥

कारागार से कुबेर छुड़ा दे।
चोर ठगों से कुबेर बचा दे ॥

कोर्ट केस में कुबेर जितावै।
जो कुबेर को मन में ध्यावै ॥

चुनाव में जीत कुबेर करावैं।
मंत्री पद पर कुबेर बिठावैं ॥

पाठ करे जो नित मन लाई।
उसकी कला हो सदा सवाई ॥

जिसपे प्रसन्न कुबेर की माई।
उसका जीवन चले सुखदाई ॥

जो कुबेर का पाठ करावै।
उसका बेड़ा पार लगावै ॥

उजड़े घर को पुनः बसावै।
शत्रु को भी मित्र बनावै॥

सहस्र पुस्तक जो दान कराई।
सब सुख भोद पदार्थ पाई॥

प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाई।
मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाई॥

दोहा:

शिव भक्तों में अग्रणी, श्री यक्षराज कुबेर।
हृदय में ज्ञान प्रकाश भर, कर दो दूर अंधेर॥

कर दो दूर अंधेर अब, जरा करो ना देर।
शरण पड़ा हूं आपकी, दया की दृष्टि फेर॥

॥ इति श्री कुबेर चालीसा ॥